

जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1954

हाल ही में एक ऐतिहासिक नरिणय में ओडिशा राज्य मंत्रमिडल ने वर्ष 1954 के श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बदि

■ परिचय:

- वर्ष 1806 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जगन्नाथ मंदिर के प्रबंधन के लिये नयिम जारी किये थे, जिसे औपनिवेशिक शासकों द्वारा **जगरनॉट टेंपल** कहा जाता था।
 - इन नयिमों के तहत, मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों से करों का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती थी।
 - ब्रिटिश सरकार को मंदिर में वरिष्ठ पुजारियों की नियुक्ति का काम सौंपा गया था।
- मंदिर के प्रबंधन की शक्तियाँ तीन वर्ष बाद **खोरधा के राजा** को सौंप दी गई थी जबकि औपनिवेशिक सरकार ने इस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा था।
- भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद **जगन्नाथ मंदिर अधिनियम, 1952** पेश किया गया जो वर्ष 1954 में लागू हुआ।
 - इस अधिनियम में मंदिर के भूमि अधिकार, पुजारियों के कर्तव्य, श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति की प्रशासनिक शक्तियों के अधिकार, पुरी के राजा और मंदिर के प्रबंधन व प्रशासन से जुड़े अन्य व्यक्तियों के विशेषाधिकार शामिल हैं।

■ हालिया संशोधन:

- जगन्नाथ मंदिर के नाम पर ज़मीन बेचने और पट्टे पर देने की शक्ति अब मंदिर प्रशासन तथा संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
- पहले के विपरीत, इस प्रक्रिया हेतु राज्य सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
 - अधिनियम की धारा 16 (2) में कहा गया है कि मंदिर समिति के कब्जे वाली कोई भी अचल संपत्ति राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पट्टे पर, गरिबी, बेची या अन्यथा हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

जगन्नाथ मंदिर:

- ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण **12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश (Eastern Ganga Dynasty) के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव** द्वारा किया गया था।
- जगन्नाथ पुरी मंदिर को **'यमनिका तीर्थ'** भी कहा जाता है, जहाँ हद्वि मान्यताओं के अनुसार, पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता **'यम'** की शक्ति समाप्त हो गई है।
- इस मंदिर को **"सफेद पैगोडा"** कहा जाता था और यह **चारधाम तीर्थयात्रा** (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) का एक हिस्सा है।
- मंदिर के **चार (पूर्व में 'सहि द्वार', दक्षिण में 'अश्व द्वार', पश्चिम में 'व्याघरा द्वार' और उत्तर में 'हस्तद्वार')** मुख्य द्वार हैं। प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है।
- इसके प्रवेश द्वार के सामने अरुण स्तंभ या सूर्य स्तंभ स्थित है, जो मूल रूप से **कोणार्क के सूर्य मंदिर** में स्थापित था।



- ओडिशा स्थिति अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक:
 - [कोणार्क सूर्य मंदिर](#) (यूनेस्को विश्व वरिसत स्थल)
 - [तारा तारिणी मंदिर](#)
 - [लगिराज मंदिर](#)
 - [उदयगिरि और खंडगिरि गुफाएँ](#)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jagannath-temple-act-1954>

